



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2008/माघ 2, 1929

No. 93]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2008/MAGHA 2, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2008

का.आ. 125(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच रुपए के सिक्के के अंकित मूल्य, आकार, डिजाइन और संरचना को अवधारित करती है, कि :—

(क) "लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में पांच रुपए के अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा;

(ख) पांच रुपए अंकित मूल्य के सिक्के, नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और धातु संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सारणी

सिक्के का अंकित मूल्य	आकार और बाह्य व्यास	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)
पांच रुपए	गोल 23 मिलीमीटर सुरक्षा किनारों सहित (एकल धातु)	फेरेटिक स्टेनलेस लोहा-83% क्रोमियम-17%

(ग) पांच रुपए का सिक्का निम्नलिखित डिजाइन के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

(i) मुख भाग.—सिक्के के मुख भाग दो समतल रेखाओं की सहायता से तीन भागों में विभाजित होगा। बाएं मध्य भाग पर "अशोक स्तंभ" का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे हिन्दी में "सत्यमेव जयते" इबारत अंतर्लिखित होगी, दायें मध्य भाग पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "5" शब्द होगा। ऊपरी भाग पर हिन्दी में "भारत" शब्द और अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा और निचले भाग पर हिन्दी में "रुपये" शब्द और अंग्रेजी में "RUPEES" शब्द होगा।

(ii) पृष्ठ भाग.—सिक्के के इस भाग पर "लाल बहादुर शास्त्री का चित्र" होगा, जिसकी बायीं परिधि पर "लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती" शब्द हिन्दी में लिखे होंगे और ऊपर तथा दायीं परिधि पर "LAL BAHADUR SHASTRI BIRTH CENTENARY" शब्द अंग्रेजी में लिखे होंगे। चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंक में अंकों में अंक "1904—2004" दर्शाया जाएगा।

(iii) पांच रुपए के सिक्के के लिए सुरक्षा किनारा.—परिधि पर सिक्का का सुरक्षा किनारा होगा। किनारे के मध्य में रिक्त जगहों द्वारा पृथक् किए हुए दो खंडों के अंदर की ओर डिजाइन में उथला खांचा होगा। इस डिजाइन में उभार में मनकों की शृंखला अंतर्विष्ट होगी और प्रत्येक मनका उभार में झुकी हुई एक पंक्ति द्वारा अनुगम किए होगा। इसमें कुल 30 पंक्तियां और 30 मनके होंगे।

[फा. सं. 7/8/2004/सिक्का]

अशोक अजमानी, अवर

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2008

S.O. 125(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines the denomination, dimension, design and composition of the coin of Five Rupees, namely :—

- (a) the coin of Five Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of "LAL BAHADUR SHASTRI BIRTH CENTENARY";
- (b) the coin of the Five Rupees denomination shall also conform to the following dimension, design and composition; as specified in the Table below namely:—

TABLE

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Metal composition
(1)	(2)	(3)
Five Rupees	Circular 23 millimeters with security edges (Mono-Metallic)	Ferritic Stainless Steel containing - Iron-83% Chromium-17%

- (c) The coin of Five Rupees shall also conform to the following design, namely :—

- (i) **OBVERSE.**—This face of the coin is divided into three portions with two horizontal lines. The center portion shall bear the "Lion Capitol" of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below and right center portion denominational value "5" in International Numerals. In the upper portion the word "भारत" in Hindi and "INDIA" in English and lower portion the word "रुपये" in Hindi and "RUPEES" in English.
- (ii) **REVERSE.**—This face of the coin shall bear the portrait of "LAL BAHADUR SHASTRI" flanked on the left periphery with the words "लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती" In Hindi and on the top and right periphery "LAL BAHADUR SHASTRI BIRTH CENTENARY" in English. The figure 1904—2004 shall be shown below the portrait in International Numerals.
- (iii) **SECURITY EDGE FOR FIVE RUPEES.**—The edge of the coin shall be security edged on periphery. At the center of the edge there shall be groove with a design inside the two section separated by blank spaces. This design shall consist of chain of beads in relief and each bead being followed by one inclined line in relief. There shall be total 30 lines and 30 beads.

[F. No. 7/8/2004-Coin II]

ASHOK AJMANI, Under Secy.